



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19—अगस्त 25, 2006 (श्रावण 28, 1928)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19—AUGUST 25, 2006 (SRAVANA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची		पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	685	छेड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	761	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1039	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संच लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	2097
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	405
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अधवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	4677
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	567
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	Page 685	than the Administration of Union Territories).....	Page *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	761	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1039	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2097
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	405
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	4677
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	567
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

**[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 13 जुलाई 2006

संकल्प

फा. सं. के-16/4/98-पीएण्डआर/5124-- अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का दिनांक 10.12.2004 के समसंख्यक संकल्प द्वारा दो वर्ष के लिए पुनर्गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.12.2004, 10.2.2005, 16.3.2005, 1.4.2005, 25.1.2006 और 14.2.2006 के संकल्पों के अन्तर्गत गठित वर्तमान अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों को बनाए रखते हुए श्री विजय कृष्णा सिन्हा, निवासी मकान सं० 314, नेहरू नगर, पाटलिपुत्र, पटना-13, बिहार को भी नए गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, 24 सरकारी सदस्यों, सदस्य सचिव व 46 गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर बोर्ड की वर्तमान क्षमता 71 सदस्यों की हो जाएगी।

तथापि दिनांक 10.12.2004 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी नियम व शर्तें वही एवं अपरिवर्तनीय रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को संप्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार

अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 14 जुलाई 2006

संकल्प

फा. सं. के-16/4/98-पीएण्डआर/5125--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का दिनांक 10.12.2004 के समसंख्यक संकल्प द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुर्नगठन किया गया था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में नामित निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है।

क्रमांक	सदस्य का नाम	उस संकल्प की तारीख जिसके अंतर्गत नियुक्ति की गई
1	श्री नीरज धामा, 32, न्यू गुडगांव प्लाजा, गुडगांव	10.12.2004
2	श्री पवन कुमार जैन, 57 थंगल बाजार, इम्फाल, मणिपुर	10.12.2004
3	श्री के.के. श्रीनिवास, सी/116 फेस-2, वसन्थलीपुरम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	10.12.2004
4	श्री गभूभाई, जखूभाई वनकर पो0 भुजोडी, तालुका भुज, कच्छ	10.12.2004
5	श्री निहिल नहता, 402/403, शिल्प-2, नजदीक सेल्स इंडिया इनकम टैक्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009	10.2.2005
6	श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा, डी-26, एनडीएसई-2, नई दिल्ली	10.2.2005
7	श्री एस.पी. ग्यामजो, हाउस नं0 99, वार्ड नं0 8, नजदीक लीड बैंक ऑफिस, ढालपुर, कुल्लु (हिमाचल प्रदेश)	10.2.2005
8	श्री जे.के. जगियासी, शुभदा को0ओ0-हाउसिंग सोसायटी, फ्लैट नं0 3002, प्लॉट नं0 63-बी, 64 एवं 64-ए, पुलिस क्लब के सामने, सर्पोचखनवाला, रोड, वरली, मुम्बई	10.2.2005
9	श्री शौकत अली "पप्पू", जे-16,74 बी/2 नवापुरा चुंगी, वाराणसी	10.2.2005
10	श्री विनायक शशीकांतभाई अग्निहोत्री, 2 दिव्या अपार्टमेंट्स, परमानन्द सोसायटी, रामनगर, मनीनगर, अहमदाबाद-8	10.2.2005
11	श्री शंकर प्रसाद, पटवा, टोली, मानपुर, पी.ओ. बुनियादगंज, जिला गया	10.2.2005
12	श्री नशाद बी. देसाई, श्रमजीवी सेवालय, स्टेशन के सामने सूरत (गुजरात)	1.4.2005
13	श्री पटेल प्रदीपभाई भानुभाई, 1-बी, श्रीजीनिवास, त्रिवेणी पार्क, कपादवंज-387620	16.3.2005
14	श्रीमती मधुबेन दुष्यंत कुमार श्रीमाली 'पलीबा' प्लॉट नं0 60/2, सेक्टर-3-ए, गांधीनगर	16.3.2005
15	श्री सुशील जैन, जैन एक्सपोर्ट्स, 16, पहली मंजिल, आलीशान काम्प्लेक्स, दनीलीमदा, अहमदाबाद-28	16.3.2005
16	श्री शिवाजीराव माधवराव मनकर, मनकर वस्ती ऐट एण्ड पीओ वडाड, ताल.निफाद, जिला नासिक, (महाराष्ट्र)	16.3.2005

बोर्ड की वर्तमान क्षमता 55 सदस्यों की होगी जिसमें पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष, 24 सरकारी सदस्य, सदस्य सचिव तथा 30 गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं।

तथापि, दिनांक 10.12.2004 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबन्धन एवं शर्तें वही तथा अपरिवर्तनीय रहेंगी।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. संदीप श्रीवास्तव  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2006

### शुद्धि पत्र

सं. ओ-12012/30/2005-ओएनजी.डि. IV—

निको रिसोर्सेज लिमिटेड को पेट्रोलियम खनन पट्टा दिये जाने के बारे में इस मंत्रालय के 2 जून, 2006 के समसंख्यक आदेश के संदर्भ में:-

पैरा-1 की पंक्ति 4 में "9.05.6 से" के स्थान पर "23.09.94 से" पढ़ा जाये।

ओ. पी. बनवारी  
अवर सचिव

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**  
(पूर्व शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2006

सं. एन-11027/37/2005-बीएसयूपी/एनयूआरएम/यूपीए-III

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा(बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के तहत एक उच्च स्तरीय समिति 4/9 मई, 2006 को गठित की गई थी जो कि इस प्रकार है:-

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| 1.  | आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री   | अध्यक्ष |
| 2.  | प्रधान सलाहकार(एचयूडी), योजना आयोग  | सदस्य   |
| 3.  | सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  | सदस्य   |
| 4.  | सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय  | सदस्य   |
| 5.  | सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  | सदस्य   |
| 6.  | सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय   | सदस्य   |
| 7.  | सचिव, आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय  | सदस्य   |
| 8.  | प्रो० सिडनी रिबैरो, शिक्षाविद्, ए-681, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076  | सदस्य   |
| 9.  | सुश्री पूर्णिमा चिकारमणि, सहायक निदेशक, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय और कार्यकर्ता कागद काच पत्र कास्तकारी पंचायत, सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग, पुणे उप केन्द्र, कार्वे रोड, पुणे-411038 | सदस्य   |
| 10. | श्री सोमदत्त, अध्यक्ष, नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल (एन ए आर ई डी सी ओ) प्रथम तल, 8, सामुदायिक केन्द्र, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065  | सदस्य   |
| 11. | श्री रमेश रामानाथन, संस्थापक, जनगृह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी, चतुर्थ तल, यूएनआई बिल्डिंग, थिमय्यारोड, बंगलौर-560052  | सदस्य   |
| 12. | श्री वीरेन्द्र गेंदा, सी-20, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049  | सदस्य   |
| 13. | संयुक्त सचिव, आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय  | सदस्य   |
- संयोजक

2. आवास और शहरी गरीबी उपशमन (एच यू पी ए ) मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के निम्नलिखित संशोधित विचारार्थ विषय होंगे ।

2.1 उच्च स्तरीय समिति जे एन एन यू आर एम के शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन तथा समेकित आवास और शहरी स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी )के कार्यान्वयन के संबंध में विचार विमर्श करने विशेषकर अन्य सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए एक भागोदारी मंच उपलब्ध कराएगी । उच्च स्तरीय समिति बी एस यू पी और आई एच एस डी पी के तहत सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का अधिकार, सस्ते मूल्यों पर आवास, पानी, सफाई, स्वास्थ्य , शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच करेगी ।

3. उक्त उच्च स्तरीय समिति की आवश्यकताओं की पूर्ति आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के जे एन एन यू आर एम कक्ष द्वारा की जाएगी ।

4. सदस्यों के यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता के प्रति होने वाला खर्च संबंधित सरकारी विभागों द्वारा उठाया जाएगा । आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ते का भुगतान सेवा नियम 190 तथा उसके परिशिष्ट -2 के तहत करेगा ।

5. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

पंकज जैन  
संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)**

New Delhi-110066, the 13th July 2006

**RESOLUTION**

No. K-16/4/98-P&R/5124.— The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 10.12.2004 for a tenure of two years. The Government of India has also decided to induct Shri Vijay Krishna Sinha, Resident of H.No.314, Nehru Nagar, Patliuputra, Patna-13, Bihar as new non-official Member in the All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolutions dated 10.12.2004, 10.2.2005, 16.3.2005, 1.4.2005, 25.1.2006 and 14.2.2006.

The present strength of the Board shall be 71 Members comprising of Chairman, 24 official Members, Member Secretary and 46 non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 10.12.2004 will, however, remain same and unchanged.

**ORDER**

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

**AJAY KUMAR**  
Additional Development Commissioner (Handicrafts)



New Delhi-110066, the 14th July 2006

## RESOLUTION

No.K-16/4/98-P&R/5125.—The All India Handicrafts Board was re-constituted vide resolution of even number dated 10.12.2004 for a tenure of two years. The Government of India has decided to terminate the term of following non-official members nominated on the All India Handicrafts Board with immediate effect.

Sl. No.	Name of the Member	Date of Resolution vide which appointment
1.	Shri Neeraj Dhama, 32, New Gurgaon Plaza, Gurgaon	10.12.2004
2.	Shri Pawan Kumar Jain, 57, Thangal Bazzar, Imphal, Manipur	10.12.2004
3.	Shri K.K. Srinivas, C/116, Ph.II, Vasanthapuram, Huderabad (AP)	10.12.2004
4.	Shri Gabhubhai Jakhubhai Vanker, To. Bhujodi, Ta. Bhuj, Kutch	10.12.2004
5.	Shri Nihil Mehta, 402/403, Shilp-II, Near Sales India Income Tax, Ashram Road, Ahmedabad -380009	10.2.2005
6.	Mrs. Meenakshi Sinha, D-26, NDSE-II, New Delhi	10.2.2005
7.	Shri S.P. Giamzo, H.No. 99, Ward No.8, Near Lead Bank Office, Dhalpur, Kullu (HP)	10.2.2005
8.	Shri J.K. Jagiasi, shubhada Coop. Housing Society, Flat No. 3002, Plot No. 63-B, 64&64A, Opp. Police Club, Sir Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai	10.2.2005
9.	Shri Shaukat Ali "Pappu", J-16, 74B/2, Navapura Chungi, Varanasi	10.2.2005
10.	Shri Vinayak Shashikantbhai Agnihotri, 2 Divya Apartments, Paramanand Society, Ramnagar, Maninagar, Ahmedabad-8	10.2.2005
11.	Shri Shankar Prasad, Patwa, Toli, Manpur, P.O. Duniyadganj, Distt. Gaya	10.2.2005
12.	Shri Nashadh B. Desai, Sharmjivi Sevalaya, Opp. Station, Surat (Gujarat)	1.4.2005
13.	Shri Patel Pradipbhai Bhanubhai, 1-B, Shrijinivas, Triveni Park, Kapadwanj - 387 620	16.3.2005
14.	Smt. Madhuben Dushyant Kumar Shrimali "Paliba", Plot No.60/2, Sector 3-A, Gandhinagar	16.3.2005
15.	Shri Sushil Jain, Jain Exports, 16, 1 <sup>st</sup> Floor, Aalishan Complex, Danilimada, Ahmedabad - 28	16.3.2005
16.	Shri Shivajirao Madhavrao Mankar, Mankar Vasti, At. & PO: Vadad, Tal. Nifad, Distt. Nasik (Maharashtra)	16.3.2005

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA  
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

**MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS**

New Delhi, the 7th August 2006

**CORRIGENDUM**

No. O-12012/30/2005-ONG.D.IV.—

Reference to this Ministry's Order of even no. dated 2<sup>nd</sup> June, 2006 regarding grant of Petroleum Mining Lease to Niko Resources Ltd.

In line 4 of Para – I after with effect from "9.05.06" may be read as "23.09.94".

**O. P. BANWARI**  
Under Secy.

**MINISTRY OF HOUSING & URBAN POVERTY ALLEVIATION  
(EARLIER MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY ALLEVIATION)**

New Delhi, the 27th July 2006

No. N-11027/37/2005-BSUP-NURM/UPA-III.—

A High Level Committee under the Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) was constituted on 4/9th May, 2006, with the following composition:-

- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | Minister for Housing & Urban Poverty Alleviation  | Chairperson         |
| 2.  | Principal Adviser (HUD), Planning Commission  | Member              |
| 3.  | Secretary, Ministry of Health & Family Welfare  | Member              |
| 4.  | Secretary, Ministry of Human Resource Development   | Member              |
| 5.  | Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment   | Member              |
| 6.  | Secretary, Ministry of Small Scale Industries   | Member              |
| 7.  | Secretary, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation  | Member              |
| 8.  | Prof. Sydney Rebeiro, Educationalist, A-681, Sarita Vihar, New Delhi-110 076  |                     |
| 9.  | Ms. Purnima Chikarmane, Assistant Director, S.N.D.T. Women's University and Activist, Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat, Deptt. of Continuing & Adult Education, Pune Sub-Centre, Karve Road, Pune-411 038. | Member              |
| 10. | Mr. Som Dutt, President, National Real Estate Development Council (NAREDCO), First Floor, 8-Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065.  | Member              |
| 11. | Mr. Ramesh Ramanathan, Founder, Janagraha Centre for Citizenship and Democracy, 4 <sup>th</sup> Floor, UNI Building, Thimmaiah Road, Bangalore-560 052.   | Member              |
| 12. | Mr. Virender Ganda, C-20, South Extension Part-II, New Delhi-110 049  | Member              |
| 13. | Joint Secretary, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation  | Member-<br>Convenor |

2. The High Level Committee constituted by the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA) will have the following modified terms of reference.

2.1. The High Level Committee will provide a participation platform for discussions relating to implementation of Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) of JNNURM and Integrated Housing & Urban Slum Development Programme (IHSDP), particularly for convergence with other Social Sector programmes. The High Level Committee will vet the proposals/ DPRs received from State Governments/ implementing agencies from the point of view of conformity to the seven point charter under BSUP and IHSDP viz., land tenure, housing at affordable cost, water, sanitation, health, education and social security.

3. The said High Level Committee will be serviced by the JNNURM Cell of the Ministry of HUPA.

4. The expenses towards TA/DA of the members will be borne by the respective Government Departments. Ministry of HUPA will pay TA/DA to non-official members, as admissible under S.R. 190 and Appendix 2 thereof.

5. This issues with the approval of the competent authority.

PANKAJ JAIN  
Joint Secy.